

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2987]	नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 20, 2016/अग्रहायण 29, 1938
No. 2987]	NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 20, 2016/AGRAHAYANA 29, 1938

नागर विमानन मंत्रालय

(ए डी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 दिसम्बर, 2016

का.आ. 4093(अ).—एतद्वारा केंद्र सरकार निम्नलिखित अधिकारियों को विमानपत्तन आर्थिक नियामक प्राधिकरण के सदस्य के रूप में, 5 वर्ष की कार्यवाधि के लिए या जब तक वे 62 वर्षों की आयु प्राप्त नहीं कर लेते या अगले आदेश तक, जो भी सबसे पहले हो, नियुक्त करती है।

- (i) श्री एन. शंकर, 27 अक्टूबर 2016 से
- (ii) श्री सुब्रता सामंता 17 नवम्बर 2016 से

[फा. सं. ए वी-24011/101/2016-ए डी]

अरुण कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

(AD Section)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th December, 2016

S.O. 4093(E).—Central Government hereby appoints the following officers as Member, Airports Economic Regulatory Authority, for a tenure of five years or till they attain the age of 62 years or until further orders, whichever is the earliest :

- (i) Shri N. Shankar w.e.f. 27th October, 2016.
- (ii) Shri Subrata Samanta w.e.f. 17th November, 2016.

[F. No. AV. 24011/101/2016-AD]

ARUN KUMAR, Jt. Secy.

5827 GI/2016

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.